



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 385) पटना, बुधवार, 10 मई 2023

सं० 02/सह.मु. पद सृजन-25/2022-1150
सहकारिता विभाग

संकल्प
4 मई 2023

विषय :- बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 06060114 द्वारा निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभाग को प्राप्त है। विभाग द्वारा अपने पत्रांक 1650 दिनांक 15.04.2014 द्वारा 09 पदों की रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजी गयी थी। परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति के कारण विभाग में वर्तमान में नियुक्ति हेतु पद पर्याप्त नहीं है।

- सामान्य प्रशासन विभाग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु 09 (नौ) अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को प्राप्त है तथा विभाग में (सरकार प्रभाग और निदेशालय प्रभाग) कुल 05 पद रिक्त है तथा 04 पद सृजित किया जाना आवश्यक है।
- तदनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 04 (चार) पदों के सृजन पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति/अनुशंसा प्राप्त की गयी है।
- इन सृजित किये जाने वाले पदों पर रु. 1618368/- (सोलह लाख अठारह हजार तीन सौ अड़सठ रु.) मात्र का वार्षिक व्यय भार अनुमानित है, जिसका वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-09 मुख्यशीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष -090 सचिवालय, उपशीर्ष -0005, सहकारिता विभाग विपत्र कोड-09-3451000900005 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी सहकारिता विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तथा नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना होंगे।
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-02.05.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-08 के रूप में (संचिका संख्या-02/सह.मु. पद सृजन-25/2022) स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

आदेश से,
नन्द किशोर,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 385-571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>